

QuickSmarts

उच्च जोखिम वाले ड्राइविंग अपराधों के लिए दंड में वृद्धि



इस तथ्य पत्र के बारे में

परिवहन और मुख्य सड़क विभाग ने यह फैक्ट शीट लिखी है। शब्द 'हम' या 'हमारा' का अर्थ है परिवहन और मुख्य सड़क विभाग।

यह तथ्य पत्रक दंड वृद्धि के बारे में है यदि आप:

- गति सीमा से अधिक ड्राइव करते हैं
- लाल बत्ती पर नहीं रुकते हैं
- या आपके यात्री सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं।

पेनल्टी (दंड)

पेनल्टी एक फाइन या डिमेरिट प्वाइंट हैं। यदि आप सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर **डिमेरिट प्वाइंट** मिलते हैं।

यदि आपके पास एल या पी ड्राइविंग लाइसेंस है और 4 या अधिक डिमेरिट प्वाइंट प्राप्त करते हैं, तो आपको कुछ समय के लिए फिर से गाड़ी चलाने के लिए **इंतजार करना होगा**। उदाहरण के लिए, 3 महीने।

यदि आपके पास ओपन ड्राइवर लाइसेंस है और 12 या अधिक डिमेरिट प्वाइंट प्राप्त करते हैं, तो आपको कुछ समय के लिए फिर से ड्राइव करने के लिए **इंतजार करना होगा**। उदाहरण के लिए, 3 महीने।

जुर्माना **1 जुलाई 2022** से बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित ड्राइव करें। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर बहुत से लोग सड़कों पर मर जाते हैं।

नई गति पेनल्टी (दंड)

अगर आप स्पीड लिमिट से ज्यादा ड्राइव करते हैं तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। आप जितनी तेजी से जाएंगे, पेनल्टी उतनी ही अधिक होगी।

गति	पेनल्टी (दंड)
1 से 10 किमी प्रति घंटा	\$287 और 1 डिमेरिट प्वाइंट
11 से 20 किमी प्रति घंटा	\$431 और 3 डिमेरिट प्वाइंट
21 से 30 किमी प्रति घंटा	\$646 और 4 डिमेरिट प्वाइंट
31 से 40 किमी प्रति घंटा	\$1078 और 6 डिमेरिट प्वाइंट
प्रति घंटा 40 किमी से अधिक	\$1653 और 8 डिमेरिट प्वाइंट और आप 6 महीने तक गाड़ी नहीं चला सकते हैं।

यदि आपकी रफ्तार 21 किमी प्रति घंटे या उससे अधिक हैं और यदि आप 12 महीनों में 2 या अधिक बार कानून तोड़ते हैं तो आपके लाइसेंस में डबल डिमेरिट प्वाइंट जोड़े जाएंगे।

उदाहरण के लिए, यदि आप गति सीमा से अधिक 21 किमी से 30 किमी प्रति घंटा ड्राइव करते हैं, तो इसके लिए:

- आपको **\$646** चुकाने होंगे
- अपने लाइसेंस में **12** डिमेरिट प्वाइंट जोड़ने होंगे

12 डिमेरिट प्वाइंटों को विभाजित किया गया है:

- पहली बार 4 डिमेरिट प्वाइंट, प्लस
- दूसरी बार 4 डिमेरिट प्वाइंट, प्लस
- 12 महीने में 2 बार कानून तोड़ने पर 4 डिमेरिट प्वाइंट।

नई लाल बत्ती पेनल्टी

यदि आप लाल बत्ती पर **नहीं** रुकते हैं, तो आप **\$575** का जुर्माना और 3 डिमेरिट प्वाइंट प्राप्त कर सकते हैं।

नई सीट बेल्ट पेनल्टी


यदि आप सीट बेल्ट **नहीं** पहनते हैं या सीट बेल्ट सही ढंग से **नहीं** लगाते हैं तो आप **\$1078** का जुर्माना प्राप्त कर सकते हैं और अपने ड्राइवर लाइसेंस पर 4 डिमेरिट प्वाइंट प्राप्त कर सकते हैं।

यदि अन्य लोग सही ढंग से फिट सीट बेल्ट **नहीं** पहनते हैं या चाईल्ड **रिस्ट्रैट** नहीं लगाते हैं तो चालक को समान दंड मिल सकता है। **रिस्ट्रैट** ऐसी सीट और स्ट्रेप हैं जो शिशुओं और बच्चों को कार में सुरक्षित रखती हैं।

यदि आप 12 महीने में 2 या अधिक बार कानून तोड़ते हैं तो आपको दोहरा दंड मिलेगा।

सीट बेल्ट को सही तरीके से कैसे पहनें

- कूल्हे के नीचे
- कंधे के ऊपर
- छाती और पेट के ऊपर।



यदि आप सीट बेल्ट नहीं लगा सकते हैं तो छूट के बारे में हमसे **13 23 80** पर बात करें। एक छूट तब होती है जब आपका डॉक्टर कहता है कि आपको सीट बेल्ट पहनने की जरूरत नहीं है। हमें सहमत होने की जरूरत है।

यदि आप कानून तोड़ते हैं तो क्या होगा?

यदि आप सड़क पर गलत काम करते हैं तो आपको पुलिस या कैमरे द्वारा पकड़ा जा सकता है। आपको एक **उल्लंघन नोटिस** भेजा जाएगा। **उल्लंघन नोटिस** एक बिल है और इसमें जुर्माना राशि, डिमेरिट प्वाइंट और भुगतान करने के तरीके होंगे।

यदि आपके लिए जुर्माना अदा करना कठिन है, तो आप इसका आंशिक भुगतान तब तक कर सकते हैं जब तक कि इसका भुगतान नहीं हो जाता या अन्य विकल्पों के बारे में **SPER** से बात नहीं कर लेते। **SPER राज्य दंड प्रवर्तन रजिस्टर** है। यह क्विंसलैंड सरकार का कार्यालय है। आप **SPER** को **1300 365 635** पर कॉल कर सकते हैं।

अधिक जानकारी

हमें **13 23 80** पर कॉल करें

व्यक्तिगत रूप से qld.gov.au/transport/contacts/centres

हमारी वेबसाइट Streetmarts.qld.gov.au

दुभाषिया और अभिगम्यता सेवाएं

यदि आपको दुभाषिया या अनुवादक की आवश्यकता है, तो अनुवाद और दुभाषिया सेवा को **13 14 50** पर कॉल करें और उन्हें हमें **13 23 80** पर कॉल करने के लिए कहें।

यदि आपको सुनने में कठिनाई है या बहरे हैं, तो राष्ट्रीय रिले सेवा:

- वॉयस रिले नंबर **1300 555 727** से संपर्क करें
- TTY नंबर **133 677**
- SMS रिले नंबर **0423 677 767**

फिर उनसे हमें **13 23 80** पर कॉल करने के लिए कहें।

13 QGOV (13 74 68)

Q | StreetSmartsQLD